

ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत अवैध तमंचा व कारतूस तथा लूट के रुपयों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व0उ0नि0 नजर इमाम की देखरेख में उ0नि0 अशोक कुमार यादव चौकी प्रभारी झरना टोला व थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के वांछित अभियुक्त 1. हरिकेश गौड़ पुत्र स्व0 दिलीप निवासी जंगल सुभानअली बेलवा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 20.07.2021 को समय 06.45 बजे छावनी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा देशी .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा लूट के बचे रू 3730/- के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अपराधी द्वारा दिनांक 15/7/2021 की रात्रि पुलिस टीम पर पादरी बाजार क्षेत्र में फायरिंग किया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 301/21 धारा 307 भादवि इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त सूरज साहनी गिरफ्तार हुआ था उक्त अपराधी वांछित चल रहा था। गिरफ्तार किये गये अपराधी हरिकेश गौड़ के विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व विवरण

हरिकेश गौड़ पुत्र स्व0 दिलीप निवासी जंगल सुभानअली बेलवा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

अभियुक्तगण जिस मुकदमे मे गिरफ्तार किया गया का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 284/21 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 300/21 धारा 392,411 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 301/21 धारा 307 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 309/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
3. लूट का बचा हुआ रु 3730/-

गिरफ्तार करने वाले पुलिस पार्टी के अधि0/कर्म0 का नाम –

- 1- श्री अशोक कुमार यादव चौकी प्रभारी झरना टोला, थाना शाहपुर गोरखपुर
- 2- का0 राजेन्द्र मौर्या, थाना शाहपुर गोरखपुर
- 3- का0 अजय चौहान, थाना शाहपुर गोरखपुर